GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

Regd. Off.: The Capital Court, 6th Floor, Olof Palme Marg, Munirka, New Delhi – 110 067

E-mail: compliance@gogiacap.com website: www.gogiacap.com,

Phones: +91-11-49418870 **CIN:** L74899DL1994PLC059674

Dated the 16th November, 2024

Department of Corporate Services/Listing **BSE Ltd.**Pheroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

Scrip Code: 531600

Ref: Regulation 47 of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

<u>Sub: Newspaper Clippings- Notice of Extra Ordinary General Meeting and other related information.</u>

Dear Sirs,

We are enclosing herewith copies of the notice of our ensuing Extra Ordinary General Meeting (EGM) to be held on 08^{th} November, 2024 published on 16^{th} October, 2024 in the following newspapers:

- i). Financial Express (English)
- ii). Jansatta (Hindi)

Kindly take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Gogia Capital Services Limited

Bharti Rana Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above.

FINANCIAL EXPRESS

Karnataka Bank Ltd. ICO

Regd. & Head Office: P. B. No.599, Mahaveera Circle, Kankanady, Mangaluru - 575 002. Ph: 0824-2228222, E-mail; investor.grievance@ktkbank.com Website: www.karnatakabank.com, CIN: L85110KA1924P#C001128

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificate(s) have been reported as lost/misplaced and upon request from the shareholder(s)/legal heir(s) the Bank will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the below mentioned person(s) unless a valid objection with all supporting documents is received by the Bank at its registered office within 15 days from the date of publication of this notice. No claim will be entertained by the Bank with respect to the original share certificate(s) subsequent to the issue of the duplicate thereof.

SI. No	Follo No.	Cert No. From To			No. of Shares	
1	48129	464563	310783109	310786174	3066	VANAMALA BALLAL

Place: Mangaluru Date: 15-10-2024

For Karnataka Bank Ltd Sham K **Company Secretary**

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

Regd. Off.: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 E mail: ritaholdingsltd@gmail.com, website: www.ritafinance.in Tel: +91-9810260127, CIN: L67120DL1981PLC011741

EXTRACTS OF THE STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

				(Rs. In Lakhs)
S. No.	Particulars	Quarter Ending	Half year Ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
	A THE STATE OF THE STATE OF	30/09/2024 (Unaudited)	30/09/2024 (Un-audited)	30/09/2023 (Un-audited)
1.	Total income from operations	22.75	55.20 4	35.35
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	9.80	34.34	30.21
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.80	34.34	30.21
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.35	26.49	22.63
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	7.35	26.49	22.63
6.	Equity Share Capital	1000.00	1000.00	1000.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	736	-	
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic : 2. Diluted :	0.07	0.26	0.22
Notes	Z. Diluted .	0.07	0.26	0.22

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. (www.ritaholdings.in) and website of the stock Exchange(s) www.msei.in and www.bseindia.in.

The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 14th

The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended).

For and on behalf of the Board of Directors of RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674

Regd. Office:- The Capital Court, 6th Floor, Olof Palme Marg, Munirka New Delhi - 110067

Email:-compliance@gogiacap.com, Website;- www.gogiacap.com, Contact no: 011-49418870

NOTICE

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (EGM), of members of Gogia Capital Services Limited will be held on Friday, 08th November, 2024 at 11:30 A.M. through video conferencing (VC)/other audio-visual means (OAVM) to transact the businesses given in Notice.

The copy of Notice of EGM is being sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depositories. Members may note that Notice of EGM and Explanatory Statement will also be available on company's website www.gogiacap.com.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote evoting and voting at EGM is 01st November, 2024.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 05th November, 2024 (9.00 am) and ends on Thursday, 07th November, 2024 (5.00 pm), after which e-voting will not be allowed.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

For Gogia Capital Services Limited

Place: Delhi Date: 15.10.2024

SD/-Satish Gogia Director

ancial Results for the tember 30, 2024

(Rs. in million except per share data)

Consolidated	1 7
September 30, 2023	September 30, 2024
Unaudited	Unaudited ,
Qtr	YTD
5,860.41	11,488.01
1,329.62	2,677.07
1,329.62	2,677.07
1,002.56	2,004.39
954.61	1,909.13
1,780.36	1,781.57
AND RECEIPTED	
5.63	1 1.25
5.63	1 1.24

of Directors at their respective meetings held on

2024 (on Standalone basis):

(Rs. in million)



(एक महारत्न कंपनी) (भारत सरकार का एक उद्यम)

तीसरी मंजिल, कोर-2, परिसर सं. 04-एमएआर, प्लॉट नं. एएफ-॥, एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156 दुरभाष: 033-2324-5555

ईमेलः comsec2.cil@coalindia.in, येवसाइटः www.coalindia.in सीआईएन- L23190WB1973GOI028844

NOTICE FOR BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 & 33 of the SEBI (LoDR) Regulations 2015, notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the company will be held on Friday, the 25th Oct'24 inter-alia to consider, approve and take on record Un-Audited Financial Results of the Company (Standalone & Consolidated) for the 2ndquarter ended 30th Sep' 2024 after the results are reviewed by the Audit Committee of the Board.

Further, pursuant to Regulation 29 & 42 of the Listing Regulations 2015, notice is also ividend of Rs. 5 per fully paid equity share of face given that Board of Directors of the company may also, inter alia, consider and declare payment of 1st Interim Dividend for FY 2024-25, if any. The Company has fixed Tuesday, 5th Nov'24 as the "Record Date" for the purpose of payment of 1st Interim Dividend on Equity Shares for Financial Year 2024-25, if declared by the Board.

The Company has already closed its "Trading Window" under "CODE OF INTERNAL PROCEDURES AND CONDUCT FOR PREVENTION OF INSIDER TRADING IN SECURITIES OF COAL INDIA LIMITED" from 1st Oct 2024 and it will re-open on 28th

The said notice may be accessed on the company's website at www.coalindia.in under "Investor Center, Events & Announcements" and also on Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Coal India Limited Sd/-

Consolidated	
September 30, 2023	September 30, 2024
Unaudited	Unaudited
Qtr	YTD *
5,860.41	11,488.01
1,329.51	2,676.37
1,002.45	2,003.69

date declared by the Company.

d Financial Results for the quarter and six months e Securities and Exchange Board of India (Listing ancial Results are available on the websites of the ://dbcorpltd.com.

> For and on behalf of the Board of Directors **Sudhir Agarwal** DIN: 00051407 **Managing Digector**

जनसता

16 अक्तूबर, 2024

तल, जीएमटीटी बिल्डिंग), नोएडा (च.प्र.)-201301

प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा

रत धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त

कर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को संबंधित

करने को कहा गया थी

एतदद्वारा ऋणकर्ता/बंधककर्ता,

इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के

गार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में

सामान्यतय सावधान किया जाता

राशि(यों) की एक राशि और इन

माँग सूचना के

अनुसार राशि

क

3,12,741/-

दिनाँक

21/07/

2024 के अनुसार

के प्रभाराधीन होगा।

तिथि तथा

ो तिथि

23/07/2024

ाम श्री नगर, ग्राम

लवाड़ा, राजस्थान

2 ए की सीमाएं:

री, उत्तरः सडक,

सांवरा गांडरी उर्फ

र्व दयाराम गांडरी

10/10/2024

ऐक्सिस बैंक

कब्जे की

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010 रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिश्ल), तृतीय तल, समराधेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबिक, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लिं0 के प्राधिकारी, न सिक्वीरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे हैं, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता एवं जमान्तकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

		many and dianel of
खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि
The second secon		
0.0.	21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	कब्जे की तिथि
श्रीमती परमजीत कौर (ऋणी) पत्नी श्री मुख्तवार सिंह पता: 1. गुरूनानक कॉलोनी, खोदलपुर, रामपुर, उठाठ 244921, पता: 2. खसरा नंठ 376/2. खंडलपुर, निकट नानक गुरूद्वारा, रामपुर, उठाठ0– 244921, श्रीमती राज कौर (सह—ऋणी) पत्नी श्री वजीर सिंह, श्री वजीर सिंह (सह—ऋणी) पुत्र श्री	खंडलपुर, निकट नानक गुरुद्वारा, रामपुर, च0प0- 244921, एरियाः 103.69 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती परमजीत कौर के नाम। चौहद्दी वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार:-	रू० 57359.90 दि. 26.07.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्च
सूरत सिंह दोनों का पताः ४१, पिलपलिया अहला,	सिंह का प्लॉट, उत्तर:– 18 फीट चौडा रास्ता	26.07.2024
बिलासपुर, रामपुर, उ०प्र०, २४४९२१	दक्षिण:— परमजीत का प्लॉट।	10.10.2024
दिनांकः 16.10.2024	III III III III III III III III III II	after the second

माँग सचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की घारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के साथ पवित । उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 2 के साथ पवित, आईआईएफएस होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएस एकएकएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हार्जिसम फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की बारा 13(2) के अंतर्गत माँग नोटिस जारी किया है, जिसमें ज्यारकर्ता(जी) से उन्हें जारी किए गए संबंधित माँग नीटिस में जिल्लाखित राशि को मुकाने की आहवान किया गया है। जपरोक्त के संबंध में ऋणी की एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे

ऋणकर्ता(ओं) /गारंटर(रॉ) के नाम	माँग सूचना तिथि एवं रावि	प्रतिभूत परिसंपत्ति । (अचल संपत्ति) का विवरण		
श्री मुबन कोइराला श्रीमती मीरा देवी (प्रॉस्पेक्ट नं आईएल10064879)	14-10-2024 ्ष रू. 30,00,238,00/- (तीस लाख दो सी अड़तीस रुपये मात्र)	संपर्धि का बढ़ पूरा हिस्सा : संपत्ति डब्ल्यूजेड-20 में छत के अविकार (पीछे की ओर) के साब निर्मित तीस्त्र मंजिल, मुन्नि केत 50 वर्ग गज (450 वर्ग पीट) नाग है, जुल केत्रकत 100 वर्ग गज (900 वर्ग फीट) में क कारपेट केत 303 वर्ग मंजिट पीट, ज्वसरा चंबर 84/ में से दिल्यों राज्य के हस्तासाल गांव की राज्य संपर्ध दिल्ली कीलोगी जिसे प्रेम नगर, गली नंबर 22, जत्म नगर, नई दिल्ली—110059 के नाम से जाना जाता है में स्थित हैं।		
श्री नवीन सैनी श्रीमती सारिका सैनी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10264724)	14-10-2024 रु. 30,07,775.00/- (रुपये तीस लाख सात हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)	संपत्ति का वह पूरा दुकड़ा जो: निर्मित प्रथम तल छत्र हैरेस अधिकारों के बिना, निजी नंबा एफएफ-101, संपत्ति नंबर 1 और 2 (टावर डी) के हिस्से पर निर्मित, 396 वर्ग फीट माप वाला कारपेर एरिया और 495 वर्ग फीट माप वाला बिक्री योग्य क्षेत्रे, खसरा नंबर 85/20 में से, गांव हस्तसाल बे क्षेत्र में, कॉलोनी जिसे प्रताप एनलेव, मोइन गार्डन, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 के नाम से जान जाता है, में स्थित है।		
श्री शिवम चौहान श्री आनंद कुमार सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल0231229)	14-10-2024 रु. 14,23,647.00 / (रुपये चौदह लाख तेईस हजार छह सौ सैंतालीस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा दुकडा और पार्सलः पत्तैट नंबर-101. यूजीएफ, पीछे की तरफ, र्सोट नंबर- बी-1, क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर (484.37 वर्ग फीट), खसरा नंबर - 338 पीय, कर एन्तरेव, ब्लॉक बी. ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, गाँव - विपियाना, दादरी, गौतम बुढ नगर, 201009, उत्तर प्रदेश में स्थित है।		
श्री धीरज कुमार शर्मा, श्रीमती खुशबू, (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10491993)	14.10.2024 रु. 26,15,565.00 / — (छब्बीस लाख पंद्रह हजार पाँच सौ पैंसठ रुपये मात्र)	संपत्ति का वह पूरा दुकड़ा जो इस प्रकार है: निर्मित द्वितीय तल, बाएँ तरफ, बिना छत ट्रेरेस अधिकारों उपरोक्त निर्मित संपत्ति जिसका प्लॉट नंबर एफ-69 है, में से, कारपेट एरिया माप 385 वर्ग फीट है, द बिक्की योग्य एरिया की माप 481 वर्ग फीट है, खसरा नंबर 68/5 में से, गांव हस्तसाल, दिल्ली राज्य दि के क्षेत्र में, कॉलोनी जिसे एफ-कॉक, हस्तसाल विहार, उत्तम नगर, गई दिल्ली 110059 के नाम से ज जाता है, में स्थित है।		
श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी, श्रीमती आशा देवी प्रॉस्पेक्ट नं. 913930)	14.10.2024 रू. 22,61,433 / – (रुपये बाईस लाख इकसठ हजार चार सौ तैंतीस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा दुकड़ा और पार्सल : जो फ्लैट नंबर— यूजीएफ—2, (एमआईजी) सामने की बाई ओर, छत के अधिकारों के, क्षेत्रफल 470 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर—एस—52, डीएलएफ, अंकुर विहार लोनी, गाजिय 201010, जत्तर प्रदेश, मारत में रिश्त हैं।		
त्री धीरेन्द्र कुमार, त्रीमती मालती, धीरेन्द्र कुमार प्राप्येक्ट न सर्वापल 10000004)	15-10-2024 रु. 23,80,865.00 / (रुपये वेईस लाख अस्ती हजार आठ	संपत्ति का वह पूरी दुकड़ा और पास्त्रंत : जो अर्थ-सुसर्किवत ऊपरी भूतल के भाग गर जिसका प्राइतेट नंबर ए-1 (एतएपएए) है, इसकी छन / छन्ज के अधिकारों के बिना, विभिन्न संपत्ति का हिस्सा होने के नाते भूति का प्राइतेट जिल्हा महाचेट ने 1, 2, 3 एनं 4, खरहा संख्या 518 मिन, और 522 मिन में समाविक, बुसाबी गांव, दिल्ली-110084 की विस्तारित लाल और आबादी में स्थित, क्षेत्रफल माप (वर्ग और मैं) स्पत्ति का		

प्रकार बिक्री योग्य क्षेत्र, कारपेट एरिया संपत्ति क्षेत्रफल 840.00, 430.00

शी पैशास माल)

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674

Regd. Office:- The Capital Court, 6th Floor, Olof Palme Marg, Munirka New Delhi - 110067

Email:-compliance@gogiacap:com, Website:- www.gogiacap.com, Contact no: 011-49418870

NOTICE

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (EGM), of members of Gogia Capital Services Limited will be held on Friday, 08th November, 2024 at 11:30 A.M. through video conferencing (VC)/other audio-visual means (OAVM) to transact the businesses given in Notice.

The copy of Notice of EGM is being sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depositories. Members may note that Notice of EGM and Explanatory Statement will also be available on company's website www.gogiacap.com.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote evoting and voting at EGM is 01st November, 2024.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 05th November, 2024 (9.00 am) and ends on Thursday, 07th November, 2024 (5.00 pm), after which e-voting will not

In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

For Gogia Capital Services Limited

Place: Delhi Date: 15.10.2024 Satish Gogia Director

प्राधिकृत अधिकारी

मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013

तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत (ओं) में अंकित राशियों का, जो नीचे एक बार पुनः सूचित किया जाता है कोई हों, के साथ पठित ऋणानबंध सलीकरण की तिथि तक राशियों पर रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को

(अचल संपत्ति)

वन वाली संपत्ति के समस्त वह भाग र के बिना, आवृत्त / अधि क्षेत्रफल, ासरा सं. 191, नंद वाटिका कॉलोनी रसी, वेव सिटी के पास, परगना एवं र उत्तर प्रदेश - 201001 में स्थित पर्व- फ्लैट सं. 408. पश्चिम- फ्लैट फीट चौडी सडक (भ तल पर)

रिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं मों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उक्त पर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय ा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली ाथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)

मिनेद

स्वस्थ हल्थकयर लिमटड

सीआईएन: L93000DL1985PLC021397

पंजीकृत कार्यालयः 812, अग्रवाल साइबर प्लाजा-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, संपर्क नंबर 011-46142960

वेबसाइटः www.be-swasth.in; ईमेल-आईडीः cs@be-swasth.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 (इसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पनः अधिनियमन सहित) ('नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो (इसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभृति और विनिम्नय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 44 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को अन्य प्रासंगिक परिपत्रों, जिसमें सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 6 जून, 2020 शामिल है। 23, 2021 और 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, ('एमसीए परिपत्र') और किसी भी अन्य लागू कांनून, नियमों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार, 15 अक्टबर, 2024 को उन सदस्यों को, जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकत की है, एनएसडीएल के माध्यम से एक ई-मेल द्वारा अधिनियम की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक वक्तव्य के साथ 15 अक्टूबर, 2024 के पोस्टल बैलट की सचना भेजी है।

बोर्ड ने पोस्टल बैलेट/ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स अपूर्व एंड एसोसिएट्स, (सदस्यता संख्या एफ12734) (सीओपी संख्या 21063) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को संवीक्षक ('संवीक्षक') नियुक्त किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सहमति या असहमति केवल ई-वोटिंग के माध्यम से ही दें। कंपनी ने शेयरधारकों को इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग की सुविधा के लिए एनएसडीएल की सेवाओं का लाभ उठाया है। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बैलेट नोटिस के नोटस में बताई गई है।

ई-वोटिंग का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण				
1.	मेसर्स एएनएसके एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक तय करना - साधारण संकल्प				

ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अविध के दौरान उपलब्ध होगी: ई-वोटिंग अवधि की शुरूआतः बुधवार, 16 अक्टूबर, 2024 को सुबह 9.00 बजे भा.मा.स.